

स्वस्थता विज्ञान

• प्रो० रामहर्ष सिंह

समदोषः समानेनश्च समधातुमलक्षियः ।
प्रसन्नात्मेन्द्रियसराः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥

॥ श्रीः ॥
व्रजजीवन आयुर्विज्ञान ग्रन्थमाला

4

स्वस्थवृत्त-विज्ञान

(केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली
द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमानुसार)

(परिवर्द्धित संस्करण)


लेखक

प्रो. रामहर्ष सिंह

कुलपति, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष : कायचिकित्सा विभाग
एवं

डीन : आयुर्वेद संकाय
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी



चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान
दिल्ली

विषयानुक्रमणिका

प्रथम खण्ड वैयक्तिक स्वस्थवृत्त

| अध्याय - 1 | त्रय-उपस्तम्भ | 38 |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| स्वस्थवृत्त-सिद्धान्त | | |
| स्वस्थवृत्त का प्रयोजन | 3 | |
| स्वस्थ का लक्षण | 4 | |
| स्वास्थ्य एवं व्याधि | 7 | |
| स्वस्थवृत्त | 8 | |
| दिनचर्या | 9 | |
| धूमपान | 13 | |
| व्यायाम | 15 | |
| चंक्रमण | 16 | |
| क्षौरकर्म | 17 | |
| अभ्यंग | 17 | |
| शरीरपरिमार्जन | 19 | |
| स्नान | 19 | |
| अनुलेपनादि | 21 | |
| वस्त्रधारण | 21 | |
| सन्ध्योपासन एवं योगाभ्यास | 22 | |
| पादुका-पादत्र-छत्र-दण्डादि धारण | 22 | |
| त्रय-उपस्तम्भ | 23 | |
| रात्रिचर्या | 23 | |
| स्वप्ननिद्रा | 24 | |
| ब्रह्मचर्य | 28 | |
| ऋतुचर्या | 32 | |
| ऋतुओं के अनुसार दोषों का सञ्चय- प्रकोप-प्रशमन | 34 | |
| षड्ऋतुओं में संशोधनक्रम | 35 | |
| ऋतुहरीतकी | 37 | |
| ऋतुसन्धि | 37 | |
| यमदंष्ट्रा | 38 | |
| | त्रय-उपस्तम्भ | अध्याय - 2 |
| | | सद्वृत्त एवं आचारादि |
| | | 39 |
| | सद्वृत्त विवेचन | 42 |
| | मानसिक सद्वृत्त | 42 |
| | चारित्रिक सद्वृत्त | 42 |
| | सामाजिक सद्वृत्त | 43 |
| | धार्मिक सद्वृत्त | 43 |
| | वैयक्तिक सद्वृत्त | 43 |
| | सद्वृत्त-पालन के लाभ का मूल्यांकन | 44 |
| | धारणीय-अधारणीय वेग | 45 |
| | आचाररसायन | 46 |
| | उपवास | 47 |
| | विवाह | 48 |
| | निन्दितानिन्दित पुरुष | 49 |
| | अध्याय - 3 | |
| | संशोधन एवं संशमन | |
| | स्वेहन कर्म | 57 |
| | स्वेदन कर्म | 59 |
| | स्वेदन के योग्यायोग्य एवं प्रभाव | 60 |
| | वमन कर्म | 60 |
| | विरेचन कर्म | 62 |
| | वस्तिकर्म | 63 |
| | वस्ति के योग्यायोग्य विचार | 65 |
| | नस्यकर्म | 66 |
| | रक्तमोक्षण | 67 |
| | केरलीय पञ्चकर्म | 68 |
| | केरलीय पञ्चकर्म की शास्त्रोक्त | |
| | पञ्चकर्म से तुलना | 72 |

| | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| धाराक्रम | 73 | अध्याय - 5 | |
| कायसेक | 79 | भूमि तथा निवास-स्थान | |
| पिण्डस्वेद | 82 | वास-स्थान | 104 |
| अन्तलेपन | 84 | जलवायु तथा तापक्रम | 105 |
| शिरोलेप | 85 | निवास योग्यायोग्य गृह | 105 |
| अध्याय - 4 | | पाकशाला | 106 |
| रसायन एवं वाजीकरण | | शौच-स्थान | 106 |
| रसायन | | दुग्धशाला | 106 |
| रसायन का प्रभाव | 88 | अध्याय - 6 | |
| रसायन का वर्गीकरण | 89 | जल तथा जल की आपूर्ति | |
| वातात्पिक रसायन विधि | 90 | जल की उपयुक्त मात्रा | 107 |
| कुटीप्रावेशिक रसायन विधि | 90 | जल का उद्गम | 107 |
| मेध्य रसायन | 91 | जलापूर्ति के प्रमुख साधन | 108 |
| नैमित्तिक रसायन | 92 | जल के प्रकार, गुण एवं दोष | 108 |
| आचाररसायन | 93 | जलकूप | 110 |
| रसायन औषधियों का स्रोतस् एवं | | जल के विभिन्न प्रकार, मार्दव तथा | |
| अग्नि पर प्रभाव | 93 | काठिन्य | 114 |
| वयानुसार विभिन्न रसायनों का प्रयोग | 94 | जल की अशुद्धियाँ | 114 |
| सात्म्यानुसार रसायन औषधियों | | जल का काठिन्य | 114 |
| का प्रयोग | 94 | अशुद्ध जल का अनारोग्यत्व | 116 |
| सप्तधातु की दृष्टि से उत्तम | | जलशुद्धि की विधियाँ | 116 |
| रसायन औषधियाँ | 94 | जल-शोधन के आधुनिक उपाय | 118 |
| देहप्रकृति की दृष्टि से उत्तम | | जल परीक्षा | 119 |
| रसायन औषधियाँ | 95 | अध्याय - 7 | |
| आयुर्वेद में आयु एवं वय का विचार | 95 | आहारद्रव्य एवं आहार-विधि | |
| महत्वपूर्ण रसायन योग | 95 | राष्ट्रीय पोषण नीति | 120 |
| वाजीकरण | | आहारद्रव्य एवं भोज्यावयव | 121 |
| वाजीकरणार्ह | 99 | कार्बोज | 122 |
| वाजीकरण द्रव्य | 100 | वसा | 123 |
| वाजीकरण प्रयोग-विधि | 102 | प्रतनक | 123 |
| वाजीकरण योग | 103 | खनिज लवण | 124 |
| मानस रोगों में रसायन एवं | | जीवनीय तत्त्व (विटामिन्स) | 125 |
| वाजीकरण की उपयोगिता | 103 | जल | 128 |
| | | आहार की मात्रा व काल | 129 |

| | | | |
|----------------------------------|-----|---|-----|
| संतुलित आहार | 129 | दुग्धाहार | 141 |
| विषम भोजनजन्य व्याधियाँ | 130 | नवनीत, घृत एवं तैल | 144 |
| शाकाहार एवं मांसाहार के गुणावगुण | 131 | चाय-काफी-मद्य-धूम-ताम्बूलादि प्रयोग | 145 |
| आहारविधिविशेषायतन | 132 | आहार, त्रिदोष एवं त्रिगुण विचार | 149 |
| द्वादशाशन विचार | 133 | आहार की त्रिदोषात्मक प्रविचारणा | 149 |
| वैरोधिक (अपथ्य) आहार | 134 | आहार की त्रिगुणात्मक प्रविचारणा | 150 |
| आहारद्रव्य परीक्षा | 135 | विभिन्न आहार सम्बन्धी तालिका | 151 |
| द्वादश आहार वर्ग | 135 | Nutritive value of some common foods | 157 |
| मांसाहार | 138 | | |

द्वितीय खण्ड

सामाजिक स्वस्थवृत्त

| | | | |
|--|-----|-------------------------------|-----|
| अध्याय - 8 | | -मलसंचयक शौचालय | 178 |
| वायु एवं वायुसंचार-व्यवस्था | | -जलवाहन शौचालय | 182 |
| वायु का गुण | 164 | किट्टमल निर्हरण की सञ्चय विधि | 185 |
| वायु संगठन, अशुद्धि तथा मिश्रण | 164 | जलवाहन मलनिर्हरण विधियाँ | 190 |
| अशुद्ध वायुजन्य व्याधियाँ | 165 | | |
| निवास स्थान में वायु प्रवेश-निकास | | अध्याय - 12 | |
| व्यवस्था | 165 | शवविनाश-व्यवस्था | |
| वायु-शुद्धि | 168 | शवविनाश की विधियाँ | |
| कृत्रिम प्रवात साधन, वायुताप- | | -अग्निदाह | 194 |
| नियामन एवं तदविषयक विचार | 168 | -विद्युदाह | 194 |
| वायु का स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्त्व | | -भूमिस्थापन | 194 |
| तथा वायु-परिवर्तन | 170 | -जलप्रवाह | 194 |
| अध्याय - 9 | | | |
| प्रकाश तथा प्रकाश-व्यवस्था | | अध्याय - 13 | |
| कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था | 172 | औद्योगिकी स्वस्थवृत्त | |
| प्राकृतिक एवं कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था | 172 | औद्योगिक संस्थान | 196 |
| अध्याय - 10 | | | |
| अपद्रव्य निवारण-व्यवस्था | | अध्याय - 14 | |
| संकरमल निवारण | 174 | विद्यालयीय स्वस्थवृत्त | |
| किट्टमल निवारण | 175 | विद्यालय भवन एवं अन्य | |
| अध्याय - 11 | | सम्बन्धित विषय | 199 |
| शौचालय एवं शौच-स्थान व्यवस्था | | | |
| शौचालय | 178 | अध्याय - 15 | |
| | | व्यावसायिक स्वस्थवृत्त | |
| | | व्यवसाय एवं स्वास्थ्य | 202 |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">अध्याय - 16</p> <p>संक्रामक रोग एवं जनपदोद्धृत्यांस</p> <p>संक्रमण एवं जनपदोद्धृत्यांस 204 जनपदोद्धृत्यांस 205 जनोपदोद्धृत्यांस के कारण 206 जनोपदोद्धृत्यांस प्रतिषेध 208 संक्रमण एवं संक्रामक रोग, परिभाषाएँ 209 व्याधिक्षमत्व 213 विसंक्रमण 220 प्रमुख संक्रामक रोग 225 विषमज्वर 226 फाइलरिया 229 काला ज्वर 231 प्लेग 232 डेंगू ज्वर 233 आन्त्र ज्वर 233 वायरल हिपैटाइटिस 234 विसूचिका 236 चेचक तथा मसूरिका रोग 238 वातज्वर 239 पोलियो 240 वातश्लैषिक ज्वर (फ्लू) 240 क्लूपिंग कफ 241 राजयक्षमा 241 रेबिज 243 कुष्ठरोग 244 टिटैनस 247 कुप्रसंगज रोग 248 फिरंग 248 उष्णमेह 249 ओजःक्षयक एड्स 249 आन्वकृमि 252 अमिक्रियासिस 255 जियार्डियेसिस 256</p> | <p style="text-align: center;">✓ अध्याय - 17</p> <p>चिकित्सालयीय स्वस्थवृत्त</p> <p>चिकित्सालय स्थल 257 चिकित्सालयीय अपद्रव्य-निवारण 260 व्यवस्था</p> <p style="text-align: center;">अध्याय - 18</p> <p>स्वास्थ्य प्रशासन</p> <p>स्वास्थ्य प्रशासन 265 स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाएँ 266</p> <p style="text-align: center;">अध्याय - 19</p> <p>समन्वित ग्रामीण विकास एवं स्वास्थ्य</p> <p>समन्वित ग्रामीण विकास योजना 269</p> <p style="text-align: center;">अध्याय - 20</p> <p>परिवार-कल्याण</p> <p>परिवार-कल्याण कार्यक्रम की आवश्यकता 271 परिवार-कल्याण का लक्ष्य, उपाय तथा स्वास्थोपरि प्रभाव 272 मातृ-शिशु स्वास्थ्य 272 निरोधक टीका कार्यक्रम 273 विश्वायतन टीकाकरण कार्यक्रम 274 बच्चों की आम व्याधि अतिसार 275 सन्तति-निरोध तथा उसके उपाय 275</p> <p style="text-align: center;">अध्याय - 21</p> <p>स्वास्थ्य सांख्यिकी</p> <p>संकलन विधि 279 जनगणना 279 निबन्धन 280 सर्वेक्षण 281 भारत के स्वास्थ्य सम्बन्धी नवीन आँकड़े 285</p> |
|---|--|

तृतीय खण्ड

योग एवं स्वास्थ्य

| | | |
|--|--|--|
| अध्याय - 22 योग का मौलिक स्वरूप योग एवं स्वास्थ्य 289 योग का मौलिक स्वरूप 290 योग के भेद 293 योग की उत्पत्ति तथा उसका प्रयोजन 296 हठयोग व्याख्या तथा प्रयोजन | स्वस्तिकासन 321 गोमुखासन 321 वीरासन 322 कूर्मासन 322 कुकुटासन 322 उत्तानकूर्मासन 323 धनुरासन 323 अर्धमत्स्येन्द्रासन 324 पश्चिमोत्तानासन 326 मयूरासन 327 शवासन 328 भद्रासन 330 योगमुद्रा 331 सिद्धासन 332 पद्मासन 333 सुखासन 333 वज्रासन 334 सिंहासन 335 विपरीतकरणी 335 सर्वाङ्गासन 337 हलासन 339 शीर्षासन 340 पवनमुक्तासन 343 | |
| अध्याय - 23 आयुर्वेद एवं योग आयुर्वेद एवं योग का सम्बन्ध 298 आयुर्वेद में योग वर्णन 299 यम 302 नियम 303 आसन 304 प्राणायाम 304 प्रत्याहार 305 धारणा, ध्यान एवं समाधि 305 अष्ट ऐश्वर्य 308 अष्टसिद्धि 309 | अध्याय - 24 योगसिद्धिकर भाव एवं स्वास्थ्य स्वास्थ्य-रक्षण में योग का महत्व 310 हठयोगाभ्यास के लिए योग्य देश तथा काल 311 योगाभ्यास-प्रतिबन्धक तथा योग- सिद्धिकर भाव 314 | अध्याय - 27 मिताहार, अहिताहार एवं पथ्यापथ्य आहार-विवेचन 344 योगाभ्यास में आहार का महत्व 347 मिताहार 347 पथ्यापथ्य 348 |
| अध्याय - 25 यम तथा नियम यम 316 नियम 316 | अध्याय - 26 आसन विज्ञान उपनिषदों एवं शास्त्रों में आसन का वर्णन 318 | अध्याय - 28 प्राणायाम परिचय प्राणायाम अभ्यास के पूर्व 350 प्राणायाम एवं नाडीशुद्धि 351 प्राणायाम काल 351 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----|---|-----|
| प्राणायाम स्वेदकार्य | 352 | अध्याय - 31 | |
| प्राणायामाभ्यास काल में भोजन | 352 | राजयोग-हठयोग परिचय | |
| प्राणायाम के युक्तायुक्त फल | 352 | हठयोग सिद्धि के लक्षण | 377 |
| कुम्भक भेद | 353 | इड़ा-पिंगला-सुषुम्ना तथा कुण्डलिनी योग | 378 |
| प्राणायाम में आवश्यक सावधानियाँ | 354 | अध्याय - 32 | |
| अध्याय - 29 | | मुद्रा, महामुद्रा, बन्ध एवं षट्क्रिया | |
| षट्कर्माभ्यास | | मूलबन्ध | 381 |
| नौलिक्रिया | 357 | जालन्धर बन्ध | 381 |
| धौतिक्रिया | 359 | उड्हियान बन्ध | 381 |
| वस्तिकर्म | 361 | अध्याय - 33 | |
| नेतिकर्म | 361 | आयुर्वेद-सम्मत योग एवं नैषिकी चिकित्सा | |
| कपालभाति | 362 | आयुर्वेद की नैषिकी चिकित्सा | 384 |
| त्राटक | 362 | जीव और चैतन्य | 385 |
| योगचिकित्सा | 363 | राशिपुरुष | 386 |
| अध्याय - 30 | | उदय-प्रलय चक्र | 386 |
| योगसाधना एवं अष्टांगयोग परिचय | | उदय-प्रलय चक्र से वशी | |
| योगसाधना | 365 | पुरुष की निवृत्ति | 387 |
| यम-नियम | 369 | उपधा एवं सुख-दुःख | 387 |
| आसन | 369 | सुख-दुःख के प्रत्यक्ष हेतु | 388 |
| प्राणायाम | 369 | आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति : योग एवं मोक्ष | 388 |
| प्रत्याहार | 369 | मोक्षप्रवर्तक उपाय | 390 |
| संयम | 370 | सत्याबुद्धि | 390 |
| धारणा | 371 | चरमसंन्यास एवं ब्रह्मभूतावस्था | 391 |
| ध्यान | 372 | प्रवृत्ति-निवृत्ति | 391 |
| समाधि | 373 | | |

चतुर्थ खण्ड निसर्गोपचार एवं नैसर्गिक स्वस्थवृत्त

| | | | |
|---|-----|-----------------------------------|-----|
| अध्याय - 34 | | प्राकृतिक स्नान | 401 |
| निसर्गोपचार का महत्त्व एवं प्रयोजन | | अन्य जलोपचार विधियाँ | 404 |
| निसर्गोपचार एवं स्वास्थ्य | 395 | जल-पट्टिका प्रयोग | 406 |
| अध्याय - 35 | | अध्याय - 36 | |
| जल चिकित्सा | | वाष्प-स्नान | |
| निसर्गोपचार में जल का महत्त्व | 400 | स्थानिक एवं सार्वदैहिक वाष्पस्नान | 408 |
| शीतोष्ण भेद से जल का उपयोग | 400 | वाष्पस्नान के फलाफल | 408 |

| | |
|---|---|
| अध्याय - 37 भूमि-सेवन एवं मृत्तिकोपचार भूमि-सेवन का महत्व एवं नैसर्गिक प्रवृत्ति 411 मिट्टी का चिकित्सीय प्रयोग 412 मृत्तिका-शोधन 414 अध्याय - 38 वायु एवं आतप स्नान प्रकृति-वायु-सूर्यप्रकाश 415 वायु एवं आतप स्नान विधि 417 वायु तथा आतप स्नान के गुण 417 अध्याय - 39 शरीरमर्दन प्राकृतिक शरीरमर्दन 419 मर्दन के भेद 420 मर्दन के गुण-कर्म 420 शरीर-मर्दन का चिकित्सीय गुण 421 शरीर-मर्दन की सामान्य विधि 421 अध्याय - 40 उपवास एवं विश्रमण उपवास 422 विश्रमण 423 अध्याय - 41 व्यायाम एवं ध्यान व्यायाम, ध्यान एवं स्वास्थ्य 425 अध्याय - 42 नैसर्गिक आहार, आहार-विधि एवं पोषण आहार-विधि एवं आहार-पोषण 427 | विभिन्न पोषक तत्त्वों की मात्रा, कार्य या अधिकता का प्रभाव 429 विभिन्न आहार द्रव्यों में प्रोटीन की उपयोगिता 430 कार्बोहाइड्रेट 430 वसा 430 खनिज तत्त्व के स्रोत 431 कैल्सियम 431 आइरन 432 आयोडीन 432 पोटैशियम 432 सोडियम 433 विटामिन्स 433 पोषण सम्बन्धी शिक्षा 435 सन्तर्पण एवं अपतर्पण जन्य व्याधियाँ 436 निरामिष एवं सामिष आहार के गुणावगुण 436 शुद्ध अन्न का स्वरूप 437 आहार का परिणाम एवं कार्य 438 अन्नरक्षा विचार 438 विरुद्ध भोजन 440 पोषण विषयक राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 442 भारतीयों के लिए प्रतिदिन पोषक तत्त्वों की मात्रा 444 |
|---|---|



पुस्तक परिचय

स्वस्थवृत्त विज्ञान भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत स्नातक पाठ्यक्रम पर आधारित अपने विषय का सर्वप्रकारेण परिपूर्ण ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में आयुर्वेद साहित्य में उपलब्ध स्वस्थवृत्त विषयक सम्पूर्ण सामग्री को पाठ्यक्रमानुसार सुव्यवस्थित करके प्रस्तुत किया गया है। यथावश्यकता आधुनिक स्वस्थवृत्त सम्बन्धी ज्ञान को भी अपनाया गया है ताकि पुस्तक अपने आप में परिपूर्ण हो। साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास तथा निसर्गोपचार विषयों का विस्तृत विवेचन भी किया गया है। महत्वपूर्ण शास्त्रीय उद्धरण टिप्पणी के रूप में सम्बन्धित पृष्ठ पर ही दे दिये गये हैं ताकि पुस्तक विषय प्रधान होते हुए भी पारम्परिक शास्त्रीय ज्ञान स्रोत से जुड़ी रहे।

सम्पूर्ण ग्रन्थ चार खण्डों में लिखा गया है—(1) वैयक्तिक स्वस्थवृत्त, (2) सामाजिक स्वस्थवृत्त, (3) योग एवं स्वास्थ्य तथा (4) स्वास्थ्य के लिए निसर्गोपचार। सम्पूर्ण पुस्तक में शास्त्रीय सन्दर्भों, तालिकाओं एवं रेखाचित्रों के माध्यम से विषय को सरल एवं बोधगम्य बनाया गया है। प्रस्तुत पुस्तक अपने आप में पूर्ण है और अभी तक उपलब्ध इस विषय से सम्बन्धित अन्य पुस्तकों की तुलना में अधिक परिपूर्ण तथा अधिक युगानुरूप सामग्री प्रस्तुत करती है।



स्वस्थवृत्त-विज्ञान के लेखक सफल चिकित्सक तथा शिक्षाविद् प्रो. रामहर्ष सिंह संप्रति राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति हैं। आपने पूर्व में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में लगभग चार दशक तक आयुर्वेद संकाय में प्राध्यापक, प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष तथा डीन के पदों पर रहते हुए आयुर्वेद के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा चिकित्सा कार्य के माध्यम से आयुर्वेद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के ही प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान तथा स्वर्णपदक प्राप्त स्नातक तथा पी-एच.डी. तथा डी.लिट् उपाधि धारक हैं। आपके निर्देशन में 100 से ऊपर एम.डी. तथा लगभग 50 शोध छात्रों ने पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त की है जो देश में अनेक सर्वोच्च पदों पर कार्यरत हैं। प्रो. सिंह के 200 शोधपत्र तथा 12 महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हैं जो अपने आप में मानक प्रकाशन माने जाते हैं। आप अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ के रत्नसदस्य हैं और भारतीय चिकित्सा अकादमी के फेलो और नेशनल कमीशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस के सदस्य हैं। प्रो. सिंह अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं शैक्षिक संस्थाओं के सलाहकार तथा कई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं के सम्पादक मण्डल में हैं।

प्रो. सिंह आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार हेतु विश्व के अनेक देशों का भ्रमण कर चुके हैं और आप अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ विद्वानों में से एक हैं। आपको पूर्व में हरिओडम् आश्रम एवार्ड, श्रीनिवास मूर्ति मेमोरियल स्वर्णपदक तथा एशियन मेडिसिन के जीवन एवार्ड और इण्डियन साइंस कांग्रेस के सेण्टेनेरी ओरेसन एवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। प्रो. सिंह आयुर्वेद चिकित्सा को एक युगानुरूप ठोस वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के प्रति समर्पित हैं।